

Date: January 23, 2026

To

The Manager – Listing National Stock Exchange of India Limited, Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051 Symbol: RAMASTEEL	Department of Corporate Services BSE Limited, Corporate Relationship Dept., P. J. Towers, Dalal Street, Mumbai - 400 001 Scrip Code: 539309
---	---

Dear Sir/Madam,

Sub: Newspaper Advertisement –Notice of Extraordinary General Meeting of the Company to be held on Saturday, 14th Day of February 2026 through Video Conferencing (“VC”)/Other Audio Visual Means (“OAVM”); and Remote E-Voting.

In pursuant to Regulation 30 and 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time, and Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, please find enclosed herewith copy of Newspaper Publication in Financial Express (English Newspaper) and Jansatta (Hindi Newspaper) dated January 23, 2026 intimating that the Extraordinary General Meeting of the Company is scheduled to be held on Saturday, 14th Day of February 2026 at 12:30 P.M. IST through VC/OAVM.

Request you to kindly take the aforesaid information on your record.

For Rama Steel Tubes Limited

Vikas Sharma
Company Secretary & Compliance Officer
Email: investors@ramasteel.com

Encl. As Above

PPFAS M

PTE LIMITED

PPFAS Asset Management

(Investment Manager) ENDED 31ST DECEMBER, 2025

Registered Office: - 81/82, 8th Floor, S

230 Nariman Point, Mumbai - Quarter

Tel.: 91 22 6140 6555 Fax: 91 22 6

Website: www.amc.ppfas.com CIN

NOTICE CUM ADDENDUM TO THE SCHEM
KEY INFORMATION MEMORANDUM (KIM
FUND AND STATEMENT OF ADDITIONAL
FUND ('THE FUND')

Addition to the List of Branches/ISCs and Off

Investors/ Unitholders are requested to note t
 enhance the service levels for investors, PPFAS
 the launch of the following new branch office. T
 Center (ISC)" and Official Point of Acceptance
 Mutual Fund, with effect from January 23, 202

Name of the Branch	Address
Bengaluru	PPFAS Asset Manag Office No. G-03A and Mahatma Gandhi Roa

Further, the existing branch office i.e. Unit no.5
 30/39, M.G. Road, Bengaluru - 560001 will b
 Acceptance (OPA).

All other features, terms and conditions ment
 Mutual Fund & SAI remain unchanged. This ne
 the SID/ KIM of Schemes of PPFAS Mutual Fun

Place: Mumbai
 Date: January 22, 2026

MUTUAL FUND INVESTMENTS A
READ ALL SCHEME RELATE

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFO TO SECURITIES NOR IS
 IT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. NOT FOR EQUITY SHARES ON THE
 MAIN BOARD OF THE BSE LIMITED ("BSE") AND IN ACCORDANCE WITH CHAPTER II
 OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD ("SEBS").

Corresponding Quarter Ended 31, 2024	Year Ended March 31, 2025
(Unaudited)	(Audited)
0.00	0.00
(196.68)	(9.41)
(217.85)	(9.41)
(217.85)	(9.41)
1.00	1.00
(885.11)	(9.41)
0.00	0.00
(884.11)	(8.41)
31,818.18	30,820.68
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
(2178.50)	(94.10)

For I
 (Inv

ncial results filed with the stock exchange
 ure Requirements) Regulations, 2015. The
 le on the stock exchange websites.
 ekamayaproperties.com.

SEBI (Listing Obligations and Disclosure
 en made to the stock exchange and are
 m and on the Company's website viz.

r and on behalf of Board of Directors of
 Ekamaya Properties Private Limited
 Keyur Shah
 Director
 DIN No: 00332145



RAMA STEEL TUBES LTD

CIN: L27201DL1974PLC007114

Regd. Office: B-5, 3rd Floor, Main Road, Ghazipur, New Delhi (India) - 110096

☎ (91)-(11)-43446600 ✉ investors@ramasteel.com 🌐 www.ramasteel.com

NOTICE TO THE MEMBERS OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 2nd Extraordinary General Meeting (EGM) of the financial year 2025-26 of the Members of the Company will be held on Saturday, 14th Day of February 2026 at 12:30 P.M. through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the businesses as set out in the Notice of EGM. Members attending the EGM through VC/OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013 ('Act').

In compliance with the applicable provisions of the Act, and Rules made thereunder and read with Rules framed thereunder and read with SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Circular No. 03/2025 dated 22nd September, 2025, General Circular No. 09/2024 dated September, 19, 2024 read with the circulars issued earlier in this regard (Collectively referred to as "MCA Circulars") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") circulars issued in this regard, the Notice of EGM have been sent on Thursday, January 22, 2026 through e-mail to all those Members whose e-mail addresses were registered with the Company or the Registrar and Share Transfer Agent or with their respective Depository Participants ("DP") in accordance with the above MCA Circulars and SEBI Circular. Additionally, However, any Member requiring a hard copy of the Notice of EGM may kindly send a request to the Company at investors@ramasteel.com.

The Notice of EGM shall also be made available on the Company's website at www.ramasteel.com, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com, National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Act read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, Secretarial Standard-2 issued by the Institute of Company Secretaries of India and MCA Circulars, the Company has provided Members the facility to cast their votes electronically through remote e-voting (prior to EGM) and e-voting (during the EGM) on all resolutions set forth in the Notice of the EGM. Detailed process and manner of remote e-Voting, e-Voting at the EGM and instructions for attending the EGM through VC/OAVM has been provided in the Notice of EGM.

The facility of casting votes will be provided by NSDL. All the Members are informed that:

- The business(es) as set forth in the EGM Notice will be transacted through voting by electronic means in the form of e-Voting.
- The voting rights of Member(s) shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date i.e. Saturday, February 07, 2026. Any person who is a member of the Company as on cut-off date is eligible to cast vote electronically through remote e-Voting or e-Voting at the EGM on all the resolutions set forth in the EGM Notice.
- A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. Saturday, February 07, 2026, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting during the EGM. In case of any person becoming the member of the Company after the dispatch of EGM Notice but on or before the cut-off date i.e. Saturday, February 07, 2026, may write an email to evoting@nsdl.com for obtaining login ID and password.
- The remote e-voting commences on Wednesday, February 11, 2026 (9.00 A.M.) and ends on Friday, February 13, 2026 (5.00 P.M.). During this period, Members may cast their votes electronically. Thereafter, the remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.
- During this period, Members holding shares either in physical form or in dematerialized form may cast their vote by remote e-Voting before the EGM.
- The Members will be provided with the facility for e-Voting at the EGM and those Members participating at the EGM, who have not already cast their vote by remote e-Voting before the EGM, will be eligible to vote at the EGM.
- The Members who have voted through remote e-Voting will be eligible to attend the EGM. However, they will not be eligible to vote at the EGM.
- M/s Arun Kumar Gupta & Associates, Company Secretaries, New Delhi, has been appointed as Scrutinizer by the Company to scrutinize the entire e-voting process in a fair and transparent manner.

Members are requested to read the instructions pertaining to e-voting as mentioned in the EGM Notice carefully. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-Voting-user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call at 022- 4886 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, National Securities Depository Ltd., 3rd Floor, Naman Chamber, Plot C-32, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai, Maharashtra - 400051 at the designated email address: evoting@nsdl.com or at telephone no. 022- 48867000

For Rama Steel Tubes Limited
 Sd/-
 (Naresh Kumar Bansal)
 Chairman & Managing Director

Place: New Delhi
 Date: 23.01.2026

This advertisement is for information purposes only and not for publication, distribution of release directly or indirectly outside India. This does not constitute an offer of an invitation of a recommendation to purchase, to hold, to subscribe or to sell securities and is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used and not defined herein shall have the meaning assigned to them in

ओएनजीसी

ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड



ONGC

Oil and Natural Gas Corporation Limited

अभिव्यक्ति की सूचना (ईओआई)

ओजीटी मल्लावरम, आंध्र प्रदेश में मिट्टी के धंसाव के उपचारात्मक उपायों के निष्पादन हेतु सेवाओं को किराए पर लेना

ओएनजीसी, ईओए एवं एचपीएचटी एसेट, काकीनाडा, ओजीटी, एचपीएचटी एसेट, मल्लावरम, आंध्र प्रदेश में मिट्टी के धंसाव के उपचारात्मक उपायों को करने का अनुभव रखने वाले प्रतिष्ठित और इच्छुक ठेकेदारों को पूर्व-योग्यता मानदंड (पीक्यूसी) दर्तावेज जमा करने हेतु आमंत्रित करती है। पीक्यूसी दर्तावेज प्राप्त करने की अंतिम तिथि: 13.02.2026, समय 17.00 बजे (आईएसटी) तक। अधिक विवरण और पीक्यूसी दर्तावेजों के लिए कृपया: <http://tenders.ongc.co.in>, <https://gepnic.gov.in> देखें।

आवश्यक क्षमता रखने वाले संपातित विक्रेता अपने दर्तावेज ईमेल के माध्यम से srivastava_alankar@ongc.co.in और das_sanjoy@ongc.co.in पर जमा कर सकते हैं।

MANAPPURAM

HOME

MANAPPURAM HOME FINANCE LIMITED

FORMERLY MANAPPURAM HOME FINANCE PVT LTD

CIN: U56923ML2010PLC039179

पंजीकृत कार्यालय: 8/596 ए, पदमपुरा मिडिलेन, भीमनगर राजीव गैडेट के पास, रेवेन्यू, डिपलार रोड, डिपलार, बिष्टु, केरल 686567, फोन नंबर: 0487-3520504, वेबसाइट: www.manappuramhome.in.

कच्चा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

युक्ति: निम्नलिखित हस्ताक्षरित, विलीय और/या प्रमाणित तथा प्रमाणित हित प्रवर्तन *अभिलेख, 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत मण्डपपुरा होम फाइनेंस लिमिटेड (मण्डपपुरा) के प्रमाणित अधिकारी होने के नाते एच प्रमाणित हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के तहत प्रवर्तन धारा 13(12) के अंतर्गत प्रवर्तन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, व्यापारकर्ताओं और सह-उत्पादकों/सह-उत्पादकों को जमा सूचना की प्रतिलिपि की प्रतिलिपि से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित शर्तों और उस पर व्याज भुक्ताने के लिए आवेदन करने हुए एक मांग सूचना जारी की है। व्यापारकर्ता द्वारा जारी मांग करने से अग्रगण्य रहने के कारण, व्यापारकर्ता और आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि निम्न हस्ताक्षरित/अचल संपत्ति के विवरण 9 के तहत प्रवर्तन धारा 13(12) के अंतर्गत प्रवर्तन शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्ति का प्रमाणित कच्चा ले विक्रेता है। विशेष रूप से व्यापारकर्ता और आम जनता को संपत्ति से निवृत्त होने के लिए स्वतंत्रता प्रदान की है और संपत्ति के कच्चे कोई भी व्यवहार मण्डपपुरा होम फाइनेंस लिमिटेड के प्रसार के अधीन होगा जैसा कि प्राप्यक संबंधित संपत्ति के लिए भी उल्लेख किया गया है।

क्र. सं.	व्यापारकर्ता और सह-उत्पादकों/सह-उत्पादकों का नाम/व्यक्ति (अचल संपत्ति के लिए)	विक्रय सुपरीकृत संपत्ति के संबंध में हित बढाया गया है उसका विवरण	मांग नोटिस के दिनांक की तिथि और कच्चा ले विक्रेता की तिथि	कच्चा ले विक्रेता की तिथि
1.	सरोज देवी, कुशुभा कुमार, /MHL01040015702/ जयपुर	प्लॉट 1591 सहित भूखंड, बार्ड नंबर 11, तहसील संगरिया, हनुमानगढ़, क्षेत्रफल 302.4 वर्ग मीटर, नगर पालिका, हनुमानगढ़ के अधिकार क्षेत्र के भीतर, और एच-रॉड/एच-संगरिया, राजस्थान की सीमा के भीतर, पिन 330563। पूर्व-सड़क 08 मीटर, परिवहन - जर्नेल सिंह का घर, दक्षिण-पुष्पा चंद का घर, उत्तर-अशोक कुमार का घर	20-10-2025 और 30.34243 /-	20-01-2026
2.	जसवीर सिंह, पाल सिंह, /MHL01050043137/ अजमेर	प्लॉट/प्लॉट संख्या 19 की आवासीय भूमि, माप क्षेत्र 140.00 वर्ग मीटर, बंधोली, जोह, रामगढ़, अजमेर, राजस्थान - 301026। पूर्व-सड़क/सड़क का आशर प्रवेष्टा/परिवहन - पाल सिंह का आशर प्रवेष्टा, दक्षिण-पुष्पा चंद का घर, उत्तर-सुरज सिंह का आशर प्रवेष्टा, और रास्ता	20-10-2025 और 30.39380 /-	20-01-2026

दिनांक: 23 जनवरी 2026 स्थान: राजगवा

हस्ता/-प्राधिकृत अधिकारी, मण्डपपुरा होम फाइनेंस लिमिटेड



एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालय: 10वीं मंजिल, कार्यालय सं. 101, 102 और 103, 2 नॉर्थ एवेन्यू, मेकर मैक्सिटी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई - 400051

कच्चा-सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के तहत)

युक्ति: अधोहस्ताक्षरित एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय: कॉमर्सजोन आईटी पार्क, टावर बी, पहली मंजिल, नंबर 111, मार्केट प्लसले रोड, पोस्ट, चेन्नई-600116 और कॉर्पोरेट कार्यालय 10वीं मंजिल, कार्यालय संख्या 101, 102 और 103, 2 नॉर्थ एवेन्यू, मेकर मैक्सिटी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400051 में स्थित है, के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय परिस्थितियों के प्रतिनिधित्व करने वाले पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत, और प्रतिभूति व्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रवर्तन शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 13.12.2024 को मांग नोटिस जारी किया जिसमें उधारकर्ताओं (1) मोहम्मद आमिर, (2) श्रीमती नसीम बानो श्रीमती दरखाना मोहदीन (3) मेसर्स ईशान ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर्स एन खाता नंबर: 214420911263436 के तहत नोटिस में बताई गई रकम रु. 27,58,334 /- खसताईस लाख अठ्ठावन हजार तीन सौ चौत्तीस रुपये मात्र, को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था। व्यापारकर्ता (व्यक्ति/व्यक्तियों) ने उक्त राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं, एतद्वारा ऋणी(ओं) और



RAMA STEEL TUBES LTD.

CIN: L27201DL1974PLC007114

Regd. Office: B-5, 3rd Floor, Main Road, Ghazipur, New Delhi (India) - 110096

+91-(11)-43446600 investors@ramasteel.com www.ramasteel.com

सदस्यों का असाधारण आम बैठक की सूचना तथा ई-वोटिंग की जानकारी

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि ईजीएम के नोटिस में निर्धारित व्यवसायों को संचालित करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विन्यूअल साधनों ('ओएवीएम') के माध्यम से कंपनी के सदस्यों की वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी असाधारण आम बैठक (ईजीएम) शनिवार, 14 फरवरी 2026 को दोपहर 12:30 बजे आयोजित की जाएगी। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 103 के तहत कोरम के प्रयोजन के लिए गिना जाएगा।

अधिनियम के लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और उसके साथ पठित उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुपालन में और सेबी (सूचीबद्धता विनियम और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के साथ पठित, परिपत्र संख्या 03/2025 दिनांक 22 सितंबर, 2025, सामान्य परिपत्र संख्या 09/2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024 के साथ पठित इस संबंध में पहले जारी किए गए परिपत्रों (सामूहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र/संदर्भित') और भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड ('सेबी') के परिपत्रों के अनुसार, ईजीएम की सूचना पुरकार, 22 जनवरी 2026 को उन सभी सदस्यों को ई-मेल के माध्यम से भेज दी गई है, जिनके ई-मेल पते उपरोक्त एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र के अनुसार कंपनी या सदस्य और शेयर ट्रांसफर एजेंट या उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों ('डीपी') के साथ पंजीकृत थे। इसके अतिरिक्त, किसी भी सदस्य को ईजीएम के नोटिस की हार्ड कॉपी की आवश्यकता है, तो कृपया कंपनी को investors@ramasteel.com पर अनुरोध भेज सकते हैं। ईजीएम का नोटिस कंपनी की वेबसाइट www.ramasteel.com, स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com और नेशनल सिक्केरीटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध कराया जाएगा।

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों, सेबी (एलओडीआर) विनियमों के विनियमन 44, भारतीय कंपनी अधिनियम के संस्थापन द्वारा जारी सचिवीय मानक -2 और एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, कंपनी ने ईजीएम के नोटिस में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर सदस्यों की रिमोट ई-वोटिंग (ईजीएम से पहले) और ई-वोटिंग (ईजीएम के दौरान) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट डालने की सुविधा प्रदान की है। रिमोट ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया और तरीका, ईजीएम में ई-वोटिंग और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने के निर्देश ईजीएम के नोटिस में प्रदान किए गए हैं।

वोट डालने की सुविधा एनएसडीएल द्वारा प्रदान की जाएगी। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

- ईजीएम नोटिस में उल्लिखित के अनुसार व्यवसाय ई-वोटिंग के रूप में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग के माध्यम से किया जाएगा।
- सदस्यों का मतदान अधिकार कट-ऑफ तिथि यानी शनिवार, फरवरी 07, 2026 को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होगा। कोई भी व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि पर कंपनी का सदस्य है, वह ईजीएम नोटिस में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर ईजीएम में रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट डालने के लिए पात्र है।
- कोई व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि यानी-शनिवार, 07 फरवरी, 2026 को, सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा प्रबंधित लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल ईजीएम के दौरान, रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा। यदि कोई व्यक्ति ईजीएम नोटिस में भेजने के बाद लोकन कट-ऑफ तिथि यानी शनिवार, 07 फरवरी, 2026 को या उससे पहले कंपनी का सदस्य बनता है, तो वह लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.com पर एक ईमेल लिख सकता है।
- रिमोट ई-वोटिंग सुविधा, फरवरी 11, 2026 ('सुबह 9.00 बजे') को शुरू होगी और सुक्रवार, 13 फरवरी, 2026 (शाम 5.00 बजे) को समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके बाद, एनएसडीएल द्वारा वोटिंग के लिए रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक बार सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- इस अवधि के दौरान, भौतिक रूप में या डीमटेरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाले सदस्य ईजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल सकते हैं।
- सदस्यों की ईजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी और ईजीएम में भाग लेने वाले वे सदस्य, जिन्होंने ईजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे ईजीएम में वोट करने के पात्र होंगे।
- जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान किया है वे ईजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे। हालांकि, वे ईजीएम में वोट देने के पात्र नहीं होंगे।
- संपूर्ण ई-वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए कंपनी द्वारा मेसर्स अरुण कुमार गुप्ता एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, नई दिल्ली को सर्वोच्च के रूप में नियुक्त किया गया है।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे ईजीएम नोटिस में उल्लिखित ई-वोटिंग से संबंधित निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। किसी भी प्रश्न के मामले में, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders और e-Voting user manual for Shareholders देख सकते हैं या 022 - 4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, नेशनल सिक्केरीटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, तीसरी मंजिल, नमन चैंबर, प्लॉट सी-32, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुंबई, महाराष्ट्र-400051 को निर्दिष्ट ईमेल पते evoting@nsdl.com पर या टेलीफोन नंबर 022- 48867000 पर अनुरोध भेज सकते हैं।

रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड के लिए
हस्ता/-

(नरेश कुमार बंसल)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 23.01.2026